



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 24 नवम्बर, 2020  
अग्रहायण 3, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/820-2020-4-110(सीतापुर)-2014  
लखनऊ, 24 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-368

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149/94, दिनांक 09 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी/2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग 3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा0नि0आ0/2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा0नि0आ0/2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार **जनपद सीतापुर** की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/356/2015-4/110(सीतापुर)/2014, दिनांक 18 फरवरी, 2015 में **विकास खण्ड बेहटा** की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

## सारणी

## जनपद – सीतापुर

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	बेहटा	बेहटा पकौरी	बेहटा पकौरी	1	बेहटा	बेहटा पकौरी	बेहटा पकौरी
2	बेहटा	रोहाचादीखेरा	रोहाचादीखेरा	2	बेहटा	रोहाचादीखेरा	रोहाचादीखेरा
3	बेहटा	ककरहा	ककरहा	3	बेहटा	ककरहा	ककरहा
4	बेहटा	सोहरिया	सोहरिया	4	बेहटा	सोहरिया	सोहरिया
			जैतपुर			नगर विकास अनुभाग-1 उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 2037 / 9-1-2019-14ए०क्यू० / 12 लखनऊ दिनांक 08.12.2019 के द्वारा नगर पंचायत तम्बौर में सम्मिलित	
5	बेहटा	सुमली	सुमली	5	बेहटा	सुमली	सुमली
6	बेहटा	मो०पुरउसिया	मो०पुरउसिया	6	बेहटा	मो०पुरउसिया	मो०पुरउसिया
7	बेहटा	सहिजरकला	सहिजरकला	7	बेहटा	सहिजरकला	सहिजरकला
			भिठिया				भिठिया
8	बेहटा	नरना	नरना	8	बेहटा	नरना	नरना
9	बेहटा	दतूनी	दतूनी	9	बेहटा	दतूनी	दतूनी
10	बेहटा	सुमेर	सुमेर	10	बेहटा	सुमेर	सुमेर
11	बेहटा	सूरेपारा	सूरेपारा	11	बेहटा	सूरेपारा	सूरेपारा
			सिकरोहर कला				सिकरोहर कला
			गोधिया				गोधिया
12	बेहटा	कुसेपा	कुसेपा	12	बेहटा	कुसेपा	कुसेपा
13	बेहटा	पट्टीदहेली	पट्टीदहेली	13	बेहटा	पट्टीदहेली	पट्टीदहेली
14	बेहटा	रतौली	रतौली	14	बेहटा	रतौली	रतौली
15	बेहटा	मुसियाना	मुसियाना	15	बेहटा	मुसियाना	मुसियाना
16	बेहटा	सोन्सरी	सोन्सरी	16	बेहटा	सोन्सरी	सोन्सरी
17	बेहटा	मिदनिया	मिदनिया,	17	बेहटा	मिदनिया	मिदनिया,
18	बेहटा	चेनिया	चेनिया	18	बेहटा	चेनिया	चेनिया

1	2	3	4	1	2	3	4
19	बेहटा	रुकनापुर	रुकनापुर	19	बेहटा	रुकनापुर	रुकनापुर
20	बेहटा	पसुराबेलवा	पसुराबेलवा	20	बेहटा	पसुराबेलवा	पसुराबेलवा
21	बेहटा	मरसण्डा	मरसण्डा	21	बेहटा	मरसण्डा	मरसण्डा
22	बेहटा	अढमलपुर	अढमलपुर	22	बेहटा	अढमलपुर	अढमलपुर
23	बेहटा	दारापुर	दारापुर	23	बेहटा	दारापुर	दारापुर
			सलारपुर				सलारपुर
24	बेहटा	महसी	महसी	24	बेहटा	महसी	महसी
25	बेहटा	मुड़िला	मुड़िला	25	बेहटा	मुड़िला	मुड़िला
			कोलगढ				कोलगढ
26	बेहटा	करेहका ऊँचगांव	करेहका ऊँचगांव	26	बेहटा	करेहका ऊँचगांव	करेहका ऊँचगांव
27	बेहटा	सिकरी बेहटा	सिकरी बेहटा	27	बेहटा	सिकरी बेहटा	सिकरी बेहटा
28	बेहटा	कटूरा	कटूरा	28	बेहटा	कटूरा	कटूरा
29	बेहटा	हजरतपुर	हजरतपुर	29	बेहटा	हजरतपुर	हजरतपुर
			कम्हरिया				कम्हरिया
30	बेहटा	कुरतहिया	कुरतहिया	30	बेहटा	कुरतहिया	कुरतहिया
			सेमरिया				सेमरिया
31	बेहटा	जालिमपुरमड़ोर	जालिमपुरमड़ोर	31	बेहटा	जालिमपुरमड़ोर	जालिमपुरमड़ोर
32	बेहटा	पिडुरिया	पिडुरिया	32	बेहटा	पिडुरिया	पिडुरिया
33	बेहटा	मूडीखेरा	मूडीखेरा	33	बेहटा	मूडीखेरा	मूडीखेरा
			बुढनापुर				बुढनापुर
34	बेहटा	मुगलपुर	मुगलपुर	34	बेहटा	मुगलपुर	मुगलपुर
35	बेहटा	समोलिया	समोलिया	35	बेहटा	समोलिया	समोलिया
36	बेहटा	करमूडीह	करमूडीह	36	बेहटा	करमूडीह	करमूडीह
37	बेहटा	रामरूढा	रामरूढा	37	बेहटा	रामरूढा	रामरूढा
38	बेहटा	मतुवासौरया	मतुवा	38	बेहटा	मतुवासौरया	मतुवा
			सौरया				सौरया
39	बेहटा	बिसवॉखुर्द	बिसवॉखुर्द	39	बेहटा	बिसवॉखुर्द	बिसवॉखुर्द
			काजीबेहड़				काजीबेहड़
40	बेहटा	मानपुरमल्लापुर	मानपुरमल्लापुर	40	बेहटा	मानपुरमल्लापुर	मानपुरमल्लापुर
			लखनीपुर				लखनीपुर
41	बेहटा	अकबरपुर	अकबरपुर	41	बेहटा	अकबरपुर	अकबरपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
42	बेहटा	चन्दीभानपुर	चन्दीभानपुर	42	बेहटा	चन्दीभानपुर	चन्दीभानपुर
			भानपुर				भानपुर
			सपहा				सपहा
43	बेहटा	डेयोढीडीह	डेयोढीडीह	43	बेहटा	डेयोढीडीह	डेयोढीडीह
			गौरिया(गैरआबाद)				गौरिया(गैरआबाद)
44	बेहटा	रायमझोर	रायमझोर	44	बेहटा	रायमझोर	रायमझोर
			मठिया(गैरआबाद)				मठिया(गैरआबाद)
45	बेहटा	खानामझोर	खानामझोर	45	बेहटा	खानामझोर	खानामझोर
46	बेहटा	सीहपुर	सीहपुर	46	बेहटा	सीहपुर	सीहपुर
47	बेहटा	रिहार	रिहार	47	बेहटा	रिहार	रिहार
48	बेहटा	पुरवा आचार्य	पुरवा आचार्य	48	बेहटा	पुरवा आचार्य	पुरवा आचार्य
49	बेहटा	सुल्तानापुर	सुल्तानापुर	49	बेहटा	सुल्तानापुर	सुल्तानापुर
50	बेहटा	माखूबेहड़	माखूबेहड़	50	बेहटा	माखूबेहड़	माखूबेहड़
			कोड़री				कोड़री
51	बेहटा	पर्वतपुर	पर्वतपुर	51	बेहटा	पर्वतपुर	पर्वतपुर
52	बेहटा	भिठिया जाल्हेपुर	भिठिया जाल्हेपुर	52	बेहटा	भिठिया जाल्हेपुर	भिठिया जाल्हेपुर
53	बेहटा	चादी	चादी	53	बेहटा	चादी	चादी
			अहिरोरी सेमरिया				अहिरोरी सेमरिया
54	बेहटा	कुटी सुपौली	कुटी सुपौली	54	बेहटा	कुटी सुपौली	कुटी सुपौली
55	बेहटा	बेलवा डिगुरा	बेलवा डिगुरा	55	बेहटा	बेलवा डिगुरा	बेलवा डिगुरा
56	बेहटा	भदफर	भदफर	56	बेहटा	भदफर	भदफर
57	बेहटा	चन्दवासोत	चन्दवासोत	57	बेहटा	चन्दवासोत	चन्दवासोत
58	बेहटा	रुखारा	रुखारा	58	बेहटा	रुखारा	रुखारा
59	बेहटा	तेजवापुर	तेजवापुर	59	बेहटा	तेजवापुर	तेजवापुर
60	बेहटा	पिपरिया	पिपरिया	60	बेहटा	पिपरिया	पिपरिया
61	बेहटा	इटौवा	इटौवा	61	बेहटा	इटौवा	इटौवा
			कैमा कला				कैमा कला
62	बेहटा	लेखनापुर	लेखनापुर	62	बेहटा	लेखनापुर	लेखनापुर
63	बेहटा	गड़ौसा	गड़ौसा	63	बेहटा	गड़ौसा	गड़ौसा
64	बेहटा	धनपुरिया	धनपुरिया	64	बेहटा	धनपुरिया	धनपुरिया
			लोहजरा				लोहजरा

1	2	3	4	1	2	3	4
65	बेहटा	कडबड़ा	कडबड़ा	65	बेहटा	कडबड़ा	कडबड़ा
66	बेहटा	पलौली	पलौली	66	बेहटा	पलौली	पलौली
67	बेहटा	सिड़किड़ा	सिड़किड़ा	67	बेहटा	सिड़किड़ा	सिड़किड़ा
68	बेहटा	रोहियाशिवपुर	रोहियाशिवपुर	68	बेहटा	रोहियाशिवपुर	रोहियाशिवपुर
			रामपुर				रामपुर
69	बेहटा	भवानीपुर	भवानीपुर	69	बेहटा	भवानीपुर	भवानीपुर
70	बेहटा	कतरारायपुर	कतरारायपुर	70	बेहटा	कतरारायपुर	कतरारायपुर
			सुजावलपुर				सुजावलपुर
			चटेला				चटेला
71	बेहटा	खैरीपट्टी	खैरीपट्टी	71	बेहटा	खैरीपट्टी	खैरीपट्टी
72	बेहटा	रमुवापुर	रमुवापुर	72	बेहटा	रमुवापुर	रमुवापुर
			हरिहरपुर				हरिहरपुर
			बरछता				बरछता
			बरेला				बरेला
			बोधवा				बोधवा
73	बेहटा	बहियाबहरामपुर	बहियाबहरामपुर	73	बेहटा	बहियाबहरामपुर	बहियाबहरामपुर
74	बेहटा	आम्बा	आम्बा	74	बेहटा	आम्बा	आम्बा
75	बेहटा	चन्देसुवा	चन्देसुवा	75	बेहटा	चन्देसुवा	चन्देसुवा
76	बेहटा	शाहपुर	शाहपुर	76	बेहटा	शाहपुर	शाहपुर
77	बेहटा	शेखनापुर	शेखनापुर	77	बेहटा	शेखनापुर	शेखनापुर
78	बेहटा	समौदीडीह	समौदीडीह	78	बेहटा	समौदीडीह	समौदीडीह
79	बेहटा	गौरचौखड़िया	गौरचौखड़िया	79	बेहटा	गौरचौखड़िया	गौरचौखड़िया
			हरखीबेहड़				हरखीबेहड़
80	बेहटा	अमरनगर	अमरनगर	80	बेहटा	अमरनगर	अमरनगर
81	बेहटा	गुरेला	गुरेला	81	बेहटा	गुरेला	गुरेला
82	बेहटा	बरेती	बरेती	82	बेहटा	बरेती	बरेती
83	बेहटा	बेलवागौहनिया	बेलवागौहनिया	83	बेहटा	बेलवागौहनिया	बेलवागौहनिया
84	बेहटा	सेतुही	सेतुही	84	बेहटा	सेतुही	सेतुही
			मीतमऊ				मीतमऊ
			नकहा				नकहा
			परेवा				परेवा
			परेई (गैरआबाद)				परेई (गैरआबाद)
85	बेहटा	बसन्तापुर	बसन्तापुर	85	बेहटा	बसन्तापुर	बसन्तापुर
			भभैला				भभैला

1	2	3	4	1	2	3	4
86	बेहटा	बड़रिया	बड़रिया	86	बेहटा	बड़रिया	बड़रिया
			ननुही				ननुही
			क्योटाना				क्योटाना
87	बेहटा	गुनियाखुर्द	गुनियाखुर्द	87	बेहटा	गुनियाखुर्द	गुनियाखुर्द
			अमितिया				अमितिया
88	बेहटा	फूलपुर गुनिया	फूलपुर गुनिया	88	बेहटा	फूलपुर गुनिया	फूलपुर गुनिया
89	बेहटा	तम्बौर देहात	तम्बौर देहात	89	बेहटा	तम्बौर देहात	तम्बौर देहात
90	बेहटा	अहमदाबाद	अहमदाबाद			पूर्व स्थिति क्रमांक 90 ग्राम पंचायत अहमदाबाद का राजस्व ग्राम अहमदाबाद का नगर विकास अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-2037/9-1-2019-14ए0क्यू0/12 लखनऊ दिनांक 08.12.2019 के द्वारा नगर पंचायत तम्बौर में सम्मिलित	
91	बेहटा	औरीशाहपुर	औरीशाहपुर	90	बेहटा	औरीशाहपुर	औरीशाहपुर
							मठियामडोर (गैरआबाद)
92	बेहटा	इस्माइलगंज	इस्माइलगंज	91	बेहटा	इस्माइलगंज	इस्माइलगंज
			सिरहना				सिरहना
93	बेहटा	छतागुर	छतागुर	92	बेहटा	छतागुर	छतागुर
			पूरनसराय				पूरनसराय
94	बेहटा	औरंगाबाद	औरंगाबाद	93	बेहटा	औरंगाबाद	औरंगाबाद
			मुगलापुर				मुगलापुर
95	बेहटा	दुबई	दुबई	94	बेहटा	दुबई	दुबई
96	बेहटा	देवपालपुर	देवपालपुर	95	बेहटा	देवपालपुर	देवपालपुर

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/356/2015-4/110(सीतापुर)/2014, दिनांक 18 फरवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
किंजल सिंह,  
निदेशक,  
पंचायती राज, उ0 प्र0।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 450 राजपत्र-2020-(989) 599 प्रतियां (क0/टी0/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 36 सा0 पंचायतीराज-2020-(990) 132 प्रतियां (क0/टी0/आफसेट)।